

(14) घरेलू फर्नीचर के बेचने से आय है:

The income from sale of household furniture is:

- (a) Taxable (कर-शुल्क) (b) Tax-Free (कर-मुक्त)
- (c) Capital gain (पूंजी लाभ) (d) Revenue gain (आवृत्त लाभ)

सिद्ध -> (b) कर-मुक्त

(15) मकान-सम्पत्ति के करवैज्य आय की गणना करते समय कितनी प्रमाण कटौती स्वीकृत है?

How much standard deduction is allowed in computing taxable income from house property?

- (a) 6% of the Annual value (वार्षिक मूल्य का 6% के बराबर)
- (b) 1/6 of Annual value (वार्षिक मूल्य का 1/6)
- (c) 30% of Annual value (वार्षिक मूल्य का 30% के बराबर)
- (d) None of the above (उपर्युक्त में से कोई नहीं)

सिद्ध -> (c) वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर

(16) कार्यालय भवन पर ह्रास की गणना निम्न दर से की जाती है: Office building is depreciated at the rate of:

- (a) 10% (b) 15% (c) 5% (d) None of these (कोई नहीं)

सिद्ध -> (a) 10%

(17) पूंजी लाभ निम्न सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से उत्पन्न होता है: Capital gain arises from the transfer of following asset:

- (a) Capital asset (पूंजी सम्पत्ति) (b) Animals (पशु) (c) Any assets (अन्य सम्पत्ति)
- (d) Personal asset (व्यक्तिगत सम्पत्ति)

सिद्ध -> (a) पूंजी सम्पत्ति

(18) 'मकान-सम्पत्ति से आय' शीर्षक की-वाल्ड वर्ष की हानि निम्न से प्रतिरकी जा सकती है: Current Year's loss under the head 'income from house property' can be set-off against:

- (a) Salaries (वेतन) (b) Non-speculative business income (शेर सट्टे के व्यापार की आय)
- (c) Speculative business income (सट्टे के व्यापार की आय) (d) All of the above (सब लगी)

सिद्ध -> (d) सब लगी

(19) धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि की अधिकतम सीमा क्या है? What is the maximum limit for the qualifying amount u/s 80C?

- (a) Rs. 1,00,000 (b) Rs. 60,000 (c) Rs. 40,000 (d) No limit (कोई सीमा नहीं)

सिद्ध -> (a) 1,00,000 ₹

(20) आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ Income tax Act 1961 was implemented on:

- (a) 1 April 1962 (b) 1 May 1962 (c) 1 June 1962 (d) 1 April 1961

1 अप्रैल 1962

(21) धारा 80C में मकान ऋण भुगतान की कौन सी सीमा :

Housing Loan instalment payment deduction u/s 80C :

(a.) Rs. 1,00,000 (b.) Rs. 30,000 (c.) Rs. 10,000 (d.) Rs. 40,000

Ans → (a.) 1,00,000 ₹

(22) पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ कर-योग्य होगा :

Capital gain from assets transfer is taxable under head :

(a.) Capital gain (पूंजी लाभ) (b.) House property (मकान सम्पत्ति)
(c.) Income from other sources (अन्य स्रोतों से आय) (d.) None (कोई नहीं)

Ans → (a.) पूंजी लाभ

(23) वित्तीय वर्ष 2008-09 का कर-निर्धारण वर्ष होगा :

The assessment year of financial year 2008-09 :

(a.) 2009-10 (b.) 2010-11 (c.) 2008-09 (d.) 2007-08

Ans → (a.) 2009-10

(24) आयकर की गणना की जाती है :

Income tax is computed on :

(a.) Capital (पूंजी) (b.) Fixed asset (स्थायी सम्पत्ति पर) (c.) Income (आय पर)
(d.) Business (व्यवसाय पर)

Ans → (c.) आय पर

(25) साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा :

Share of partner in the income of partnership firm shall be :

(a.) Taxable (कर-योग्य) (b.) Exempted (कर-मुक्त) (c.) Fully exempted (पूर्णतया कर-मुक्त)
(d.) Partially exempted (आंशिक कर-मुक्त)

Ans → (c.) पूर्णतया कर-मुक्त

(26) कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों की आय करदाता की आय में सम्मिलित की जाती है अर्थात् :

In certain cases, income of some persons is included in the income of assessee.

(a.) Clubbing of income (आय का मिलान) (b.) Increase of income (आय को बढ़ाना)
(c.) Aggregated income (एकीकृत आय) (d.) None of these (इनमें से कोई नहीं)

Ans → (a.) आय का मिलान

(27) धारा 80-D के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक के संबंध में अधिकतम कौन सी सीमा है :

Under section 80-D, in case of senior citizen, maximum deduction is allowed :

(a.) Rs. 15,000 (b.) Rs. 20,000 (c.) Rs. 40,000 (d.) None of these (इनमें से कोई नहीं)

Ans → (b.) - 20,000 ₹